



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 कार्तिक 1932 (श0)
(सं0 पटना 748) पटना, मंगलवार, 9 नवम्बर 2010

पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

26 अक्टूबर 2010

सं0 निग/सारा-4-(पथ) उड़नदस्ता-34/10-14982 (S)—श्री संतोष चन्द्र सरकार, सहायक शोध पदाधिकारी, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल सीवान द्वारा पथ प्रमंडल सीवान के अन्तर्गत छपरा—मांझी—दरौली—गुठनी पथ के कि0मी0 35, 37, 39, 46 एवं 47 में जी0एस0बी0, डब्लू0बी0एम0 ग्रेड—II एवं , डब्लू0बी0एम0 ग्रेड—III कार्य में बरती गयी अनियमितताओं के लिए विभागीय पत्रांक—12866 (एस) अनु0 दिनांक 11 नवम्बर 2009 द्वारा श्री सरकार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री संतोष चन्द्र सरकार, सहायक शोध पदाधिकारी, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल सीवान द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक—शून्य, दिनांक 07 दिसम्बर 2009 एवं पूरक समर्पित स्पष्टीकरण पत्रांक—शून्य दिनांक 17 अप्रील 2010 की विभागीय समीक्षा में पाया गया कि जी0एस0बी0 कार्य में एफ0आई0+ई0आई0 30 प्रतिशत से अधिक होना कार्य की त्रुटिपूर्ण गुणवत्ता को इंगित करता है जिसके लिए श्री सरकार दोषी हैं।

तदालोक में श्री संतोष चन्द्र सरकार, सहायक शोध पदाधिकारी, गुण नियंत्रण अवर प्रमंडल सीवान के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए निम्न दंड संसूचित किया जाता है:—

1. दो वार्षिक वेतन वृद्धियों पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 748-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>